

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**जनवरी, 2014 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014 (पौष 20, 1935)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. शपथ /प्रतिज्ञान

जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

## 2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -  
(क) मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013); तथा  
(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पटल पर रखती हूँ.

## 3. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“ डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय.”

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“ डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय.”

श्री मुकेश नायक, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(3) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“ डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय.”

श्री के.पी. सिंह, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

## 4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

## 5. विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 144-विदिशा से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विधान सभा में अपना स्थान त्याग करने की सूचना.

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

## 7. वर्ष 2013-2014 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2013-2014 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

## 8. वर्ष 1999-2000 वर्ष 2000-2001 एवं 2002-2003 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री वर्ष 1999-2000 वर्ष 2000-2001 एवं 2002-2003 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

## 9. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री ईश्वरदास रोहाणी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
- (2) श्री शीशराम ओला, भारत के केन्द्रीय मंत्री
- (3) श्री नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति
- (4) श्री अरूण नेहरू, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
- (5) श्री मोहन धारिया, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
- (6) श्री खुर्शीद आलम खां, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
- (7) श्री दिलीप सिंह जूदेव, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
- (8) श्री हरि किशोर सिंह, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
- (9) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय उपमंत्री
- (10) श्री बापूसिंह यादव, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (11) श्री विट्ठल भाई पटेल, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (12) श्री रामनरेश त्रिपाठी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (13) श्री कपिलदेव नारायण सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (14) श्री ईश्वर सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (15) श्री गोविन्द प्रसाद गीते, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (16) श्री राघवराम चौधरी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (17) श्री रामहित गुप्त, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (18) श्री काशीप्रसाद बागरी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (19) श्री विष्णु चरण जोशी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (20) श्री रायसिंह भदौरिया, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (21) श्री गुरुबक्श अतुलकर, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
- (22) श्री प्राण, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता
- (23) श्री मन्नाडे, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक

भोपाल :

दिनांक : 9 जनवरी, 2014

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा